



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2016 (अग्रहायण 12, 1938)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2016 (AGRAHAYANA 12, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	979	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1117	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2541	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1719
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 565
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 2339
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	979	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1117	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2541	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1719
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	565
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2339
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति)—आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या II/12013/2/85-रा.भा.(क.-2) दिनांक 30.07.1986, संख्या II/12013/1/2000-रा.भा.(नी.-2) दिनांक 08.08.2005 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 11014/11/2013 -रा.भा.(प) दिनांक 02.05.2013 एवं संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 के अनुक्रम में “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से उक्त योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए गए हैं:

- (i) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार मंच पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किए जायेंगे। प्रोत्साहन पुरस्कार अलग से प्रदान किए जायेंगे।
- (ii) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी नकद पुरस्कार डायरेक्ट बेंनेफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) योजना के अनुरूप हिंदी समारोह से पहले ही ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। समारोह में केवल स्मृति चिह्न/प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए पुरस्कार विजेताओं के आधार नं० व बैंक संबंधी विवरण लिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति)—राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 एवं दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

पत्रिकाओं से संबंधित

- (क) I. पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता-20 अंक
- II. सरकारी कामकाज में उपयोगिता-30 अंक

- III. भाषा, शैली एवं प्रस्तुतीकरण-20 अंक
- IV. विन्यास, साज सज्जा कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण स्तर-20 अंक
- V. आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात-10 अंक
- VI. छपे लेखों की मौलिकता-30 अंक

2. गृह-पत्रिकाओं के पुरस्कार चयन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय कुल पांच सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

3. गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी कार्यालयों से पत्रिकाओं की कुल पांच प्रतियां मंगाई जाएंगी।
लेखों से संबंधित

(ख) उत्कृष्ट लेखों के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

- I. विषय की सरकारी कामकाज में उपयोगिता-20 अंक
- II. भाषा की सरलता एवं स्पष्टता-20 अंक
- III. विषय विचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता-15 अंक
- IV. समसामयिक विषय-20 अंक
- V. विचारों की मौलिकता-25 अंक

4. उत्कृष्ट लेखों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय पांच सदस्य होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

5. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिवों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र को मंच पर देने के बजाय अलग से दिए जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

संकल्प

सं.29-1/2013-सीडीएन—इस मंत्रालय के दिनांक 19 सितम्बर, 2016 के समसंख्यक संकल्प के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को संशोधित और अद्यतनकृत संकल्प की एक प्रति इसके साथ अद्योषित करने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा भारत सरकार ने संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से विचारों और अभिरुचियों के विविध सूक्ष्म रूपों के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लेने की सहभागी प्रक्रिया विकसित करने के लिए कुछ सदस्यों के नामों वाला केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड (सीएबीसी) गठित करने का संकल्प लिया है। सीएबीसी के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1.	संस्कृति मंत्री 10, राजाजी मार्ग नई दिल्ली 110011	अध्यक्ष
----	---	---------

2.	डॉ. सोनल मानसिंह, दिल्ली भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र, गुलमोहर इंस्टीट्यूशनल एरिया, निफ्ट के आगे, नई दिल्ली 110016 ई-मेल: sonaldance@yahoo.com दूरभाष: 011-24335581	सदस्य
3.	पं. शिव कुमार शर्मा 22, राजीव अपार्टमेंट, जिग जैग रोड पाली हिल, बांद्रा, मुंबई-400050 महाराष्ट्र, भारत ई-मेल: shivsantoor@gmail.com दूरभाष: 91-22-26486710 / 26051447	सदस्य
4.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया वृन्दावन गुरुकुल, जुहू वर्सावा लिंक रोड अंधेरी (वेस्ट), मुंबई ई-मेल: chaurasia.hariprasad@gmail.com	सदस्य
5.	पं. छन्नू लाल मिश्रा डी 60/61 छोटी गैबी कृष्णापुरी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) ई-मेल- chhannulalmishra@hotmail.com मोबाइल: 09415224310	सदस्य
6.	पं. राजन मिश्रा स्वरंजन 2 / 52,53 रमेश नगर, नई दिल्ली 110015 ई-मेल : rajansajan@yahoo.com rajansajanmishra@gmail.com मोबाइल: 09868119420	सदस्य
7.	श्री सुरेश तलवरकर सी विंग राधा छाया, जयप्रकाश नगर रोड नंबर 4, गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई-400063 ई-मेल : talwarkarsuresh@gmail.com मोबाइल: 9850045306	सदस्य
8.	श्रीमती एन. राजम पं. राजम स्कूल ऑफ वायलिन 403, स्प्रिंगहिल, हीरानंदानी एस्टेट घोडबंदर रोड, ठाणे (वेस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र ई-मेल : nrajam@gmail.com दूरभाष : +91 22 40123572/40128417 मोबाइल: 9322244867	सदस्य

9.	श्री वासुदेव कामथ काशीगांव, मीरा रोड ईस्ट, मीरा भयंदर, महाराष्ट्र ई-मेल : vasudeokamath@gmail.com मोबाइल: 9930313979	सदस्य
10.	श्रीमती एस.आर. लीला धारिनी, # 30, 3 मेन, 1 क्रॉस केईबी लेआउट, कटरीगुप्पी, बेंगलोर ई-मेल : bharati_trust@yahoo.co.in मोबाइल : 9448092904	सदस्य
11.	श्री विक्टर बनर्जी 10 ईस्ट, हैरिंगटन स्ट्रीट (हो-ची-मिन सारणी) कोलकाता -700071 ई-मेल: chinaras@redifmail.com मोबाइल : 9830019191/9830429182	सदस्य
12.	श्री प्रांजल सैकिया इंडियन टेक्नीकल इंस्टीट्यूट समीप केतकी बिबाह भवन, सम्मुख- असम वैली अकादमी, जिला- सोनितपुर ई-मेल: pranpurn@gmail.com मोबाइल : 9864022785	सदस्य
13.	श्री एस. एल. भाईरप्पा # 1007, उदय रवि रोड कुवेम्पु नगर, मैसूर-570023 दूरभाष : 0821 2343535	सदस्य
14.	श्री नरेन्द्र कोहली 175, वैशाली प्रीतमपुरा नई दिल्ली - 110054 ई-मेल: narendra.kohali@yahoo.com दूरभाष : 011 27315197/27312605 मोबाइल : 9871681382	सदस्य
15.	प्रो. सतीश चंद्र मित्तल 6 / 1277ए, माधव नगर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश-247001 मोबाइल नंबर 9319480430 ई-मेल आईडी- Prof.scmittal@gmail.com	सदस्य

16.	श्री समीर अंजान बी/ 501, वुडलैंड लोखंडवाला कॉम्प्लैक्स, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-400053 ई-मेल: songwriter.sameer@gmail.com दूरभाष : 022-26330630 मोबाइल नंबर 09821094726	सदस्य
17.	श्री अनुपम खेर 402 मरीना, जुहू तारा रोड जुहू बीच, मुंबई महाराष्ट्र, ई-मेल: herman@annpamkhercompany.com दूरभाष : 022-26770362/26772458 मोबाइल : 9833257820	सदस्य
18.	श्री श्याम शर्मा 2ए, 31/7, एस -4, संगम अपार्टमेंट गाजियाबाद-201012 मोबाइल : 09891049378 ई-मेल : shyam.art@yahoo.com	सदस्य
19.	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम. रामा जोइस श्रीशैल नं 870-सी, वी ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलोर-560010 मोबाइल : 9868181931	सदस्य
20.	सुश्री उमा शर्मा कथक नृतक निवासी- उमा शर्मा डांस स्कूल, 52 सामुदायिक केन्द्र राजा धीरसेन मार्ग, डी ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 ई-मेल : umakathak1@rediffmail.com मोबाइल : 9810069237	सदस्य
21.	प्रो. एम. बालसुब्रमण्यम (मुथुस्वामी बालसुब्रमण्यम) 37/1744, कौसस्तुहम, कुमारनासन रोड कल्लूर, पोस्ट-कोच्चि-682017 केरल मोबाइल : 9447014885 ई-मेल : mridangm@gmail.com	सदस्य
22.	प्रो. रहमान अली मकान संख्या 58, महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462042 मोबाइल : 9425332709 ई-मेल : rahmana45@gmail.com	सदस्य
23.	सचिव (संस्कृति)	सदस्य सचिव

II. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ विषय

- (क) भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों और विविध क्षेत्रों में सृजनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऐसे कार्यक्रमों का विकास करने, जिनकी अभी तक उपेक्षा की गई है अथवा वर्तमान संस्थागत तंत्रों के माध्यम से इन्हें कायम नहीं रखा गया है, के संबंध में नीति स्तर पर संस्कृति मंत्रालय को सलाह देना।
- (ख) विविध उपक्षेत्रों में मानव संग्रहों की पहचान करना और हस्तांतरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य नीतियों पर सुझाव देना तथा सरकार को उन कार्यक्रमों की सिफारिश करना, जो विकास की प्रक्रिया के साथ उन दीर्घ परंपराओं की सृजनात्मकता को समेकित करेंगे।
- (ग) संबंधित अभिकरणों द्वारा भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की सीमा और तरीकों की जांच करना।
- (घ) संस्कृति के क्षेत्र में नए आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के निर्माण हेतु सूचना उपलब्ध कराने में सहायता देना।
- (ङ) संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय मिशनों के कार्यों का मार्गदर्शन करना।

III कार्यकाल

केंद्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए, संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा।

IV बैठक

यह बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

V सचिवालय सहायता

सचिवालय सहायता संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

VI यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता

- I. किसी राज्य अतिथि गृह अथवा मध्यम श्रेणी के आईटीडीसी होटल अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यटक होटल / हॉस्टल अथवा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इंडिया हैबीटाट सेंटर जैसी पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा प्रदान की गई आवासीय व्यवस्था में एक कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति।
- II. भोजन व्यवस्था के उद्देश्य हेतु सिविल सेवक के उच्चतर ग्रेड के लिए यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ते (डीए) की साधारण दरों के 90 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता।
- III. उपरोक्त के अलावा, बाहर से आने वाले गैर-सरकारी सदस्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग द्वारा यथा निर्धारित बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों, सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रेषित की जाए।

पंकज राग
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 31st October 2016

RESOLUTION

No. 11034/48/2014-O.L(Policy)—In continuation of Department's Resolution No. II/12013/1/2000-O.L (Policy 2) dated 08/08/2005 and Office Memorandum No.11014/11/2013-O.L(Policy) dated 02/05/2013 and 11034/48/2014-O.L (Policy) dated 25/03/2015 following partial amendment has been made in "Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna" from the year 2016-17 writing books originally in Hindi in order to promote various streams of modern knowledge/science as well as Official Language Hindi.

- I. Under the scheme "Rajbhasha Gaurav Puraskar" only 1st, 2nd and 3rd Prizes will be given away by the Chief Guest on the stage. Consolation Prizes will be given separately.
- II. All the cash Prizes under the scheme "Rajbhasha Gaurav Puraskar" will be transferred to the Bank account online before the Hindi function as per the Direct Benefit Transfer Scheme. Only memento/certificate will be given on the Stage during the function. For this purpose Aadhar number and Bank details of the Prize winners will be obtained.

ORDER

It is ordered that copies of this resolution may be sent to all the state Governments, Union territory Administration all the Ministries/ Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this resolution may be published in gazette of India for general information

BIPIN BEHARI
Joint Secretary

RESOLUTION

No. 11034/48/2014- O.L(Policy)—In continuation of Departments resolution No 11034/48/2014-OL(Policy) dated 25-03-2015 and dated 14.07.2016, the following items and their marks have been fixed by making amendments in mark list for Grih Patrikas from the year 2016-17 in order to promote implementation of Official Language Policy under the scheme "Rajbhasha Kirti Puraskar"

Magazine related items:

(A)

- I. Utility of the Magazine for the Promotion of Official Language-20 marks.
- II. Utility in Official work- 30 marks.
- III. Language, style and presentation -20 marks.
- IV. Layout, decoration, quality of paper and the printing level-20 marks.
- V. Ratio of articles written by internal staff-10 marks.
- VI. Originality of published articles-30 marks.

2. There will be five members instead of seven members in the committee constituted for the selection of prizes of Grih Patrikas. Joint Secretary(O.L) – Chairman, Two members will be from Department of Official Language and there will be two other non-official members.

3. Total five copies each from all the office will be called for the evaluation of Grih Patrikas.

Items related to Articles

(B) Following items and marks for them have been fixed for excellent articles by amending the marks list.

- I. Utility of the subject in official work-20 marks.
- II. Simplicity and clarity of the Language-20 marks.
- III. Quality of presentation of ideas related to subject-15 marks.

IV. Contemporary subjects-20 marks.

V. Originality of ideas-25 marks.

4. There will be five members instead of seven members in the committee constituted for evaluation of excellent articles. Joint Secretary (O.L) – Chairman, two members from Department of Official Language and there will be two other non-official members.

5. Under the scheme “Rajbhasha Kirti Puraskar Yojna” certificates to member Secretaries will be given separately instead of giving them on the stage.

ORDER

It is ordered that copies of this resolution may be sent to all the state Governments, Union territory Administration all the Ministries/ Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this resolution may be published in gazette of India for general information

BIPIN BEHARI
Joint Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 25th October 2016

RESOLUTION

No.29-1/2013-CDN—In supersession of this Ministry’s Resolution of even number dated 19th September, 2016, the undersigned is directed to forward herewith a copy of revised and updated resolution whereby the Government of India has resolved to constitute the Central Advisory Board on Culture (CABC) consisting of the names of certain members in order to evolve a participative process of decision-making by taking an integrated view of the various shades of ideas and interests from different domains of culture. Following are the members of CABC:-

- | | |
|--|-------------|
| 1. Minister of Culture
10, Rajaji Marg
New Delhi-110011 | Chairperson |
| 2. Dr. Sonal Mansingh, Delhi
Centre for Indian Classical dances,
Gulmohar Institutional Area,
Next to NIFT, New Delhi- 110016
Email: sonaldance@yohoo.com
Tel: 011-24335581 | Member |
| 3. Pt. Shiv Kumar Sharma
22, Rajiv Apartments, Zig Zag Road
Pali Hill, Bandra,
Mumbai-400050
Maharashtra, India
E.MAIL. shivsantoor@gmail.com
Tel: 91-22-26486710/26051447 | Member |
| 4. Pt. Hari Prasad Chaurasia
Vrindaban Gurukul
Juhu Versova link Road
Andheri(West), Mumbai
E.mail; chaurasia.hariprasad@gmail.com | Member |
| 5. Pt. Chhannu Lal Misra
D 60/61 Chhoti Gaibi
Krishnapuri, Varanasi (U.P)
E.mail. chhanulalmishra@hotmail.com
Mob. 09415224310 | Member |

-
- | | | |
|-----|--|--------|
| 6. | Pt. Rajan Mishra
Sawangan 2/52,53
Ramesh Nagar
New Delhi-110015
E.mail; rajansajan@yahoo.com
rajansajanmishra@gmail.com
Mob:- 9868119420 | Member |
| 7. | Shri Suresh Talwalkar
C Wing radha Chhaya, Jayprakash Nagar
Road No.4, Goregaon (East)
Mumbai-400063
Email:- talwalkarsuresh@gmail.com
Mob. 9850045306 | Member |
| 8. | Smt. N.Rajam
Pt. Rajam School of violin
403, Springhill, Hiranandani Estate
Ghodbunder Road, Thane (West)
Mumbai, Maharashtra
E.mail. nrajam@gmail.com
Tel: +91 022- 40123572/ 40128417
Mob: 9322244867 | Member |
| 9. | Shri Vasudeo Kamath
Kashigaon, Mira Road east,
Mira Bhayandar, Maharashtra
Mob. 9930313979
Email: vasudeokamath@gmail.com | Member |
| 10. | Smt S.R. Leela
Dharini, # 30, 3rd Main, 1st Cross
KEB Layout, Katriguppe
Bangalore
E.mail; bharati_trust@yahoo.co.in
Mob. 9448092904 | Member |
| 11. | Shri Victor Banerjee
10 East, Harrington Street (Ho-Chi-Min Sarani)
Kolkata- 700071
Email: chinaras@redifmail.com
Mob: 9830019191/ 9830429182 | Member |
| 12. | Shri Pranjal Saikia
Indian Technical Institute
Near Keteki Bibah Bhawan,
Opp, Asam valley Akademi,
District- Sonitpur
Email: pranpurn@gmail.com
Mob: 9864022785 | Member |
| 13. | Shri S.L.Bhairappa
1007, Udaya Ravi Road
Kuvempu Nagar
Mysore-570023
Ph: 0821 2343535 | Member |
| 14. | Shri Narendra Kohli
175, Vaishali, Pitampura,
New Delhi-110034
27315197/27312605
Mob: 9871681382
Email: narendra.kohli@yahoo.com | Member |

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 15. | Prof. Satish Chandra Mittal
6/1277A Madhav Nagar, Sharanpur
UP-247001
Mob. No. 9319480430
Email ID. Prof.scmittal@gmail.com | Member |
| 16. | Shri Sameer Anjaan
B/501, Woodland Lokhandwala
Complex, Andheri (W), Mumbai-400053
TEL. No. 022-26330630
Mob. No. 09821094726
Email: songwriter.sameer@gmail.com | Member |
| 17. | Shri Anupam Kher
402 Marina, Juhu Tara Road
Juhu Beach, Mumbai
Maharashtra,
Tel: 022- 26770362/ 26772458
Mob. 9833257820
Email: herman@annpamkhercompany.com | Member |
| 18. | Shri Shyam Sharma
2A, 31/7, S-4, Sangam Apartment
Ghaziabad-201012
Mob. 09891049378
E.mail; shyam.art@yahoo.com | Member |
| 19. | Justice (Retd.) M. Rama Jois
Shrishaila No. 870-C, V Block
Rajajinagar, Bangalore-560010
Mob.9868181931 | Member |
| 20. | Ms. Uma Sharma
Kathak Dancer R/o-Uma Sharma
Dance School, 52 Community Centre
Raja Dhirsain Marg, D Block
East of Kailash, New Delhi-110065
E.mail; umakathak1@rediffmail.com
Mob. 9810069237 | Member |
| 21. | Prof. M.Balasubrahmaniam
(Muthuswamy Balasubramoniam)
37/1744, Kousthuham, Kumaranasan Road
Kaloor, Post-Kochi-682017
Kerala
Mob. 9447014885
E.mail; mridangm@gmail.com | Member |
| 22. | Prof. Rahman Ali
H. No. 58, Mahabali Nagar,
Kolar Road, Bhopal (MP)-462042
Mob.9425332709
Email ID. rahmana45@gmail.com | Member |
| 23. | Secretary (Culture) | Member Secretary |

II. TERMS OF REFERENCE OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD

- (a) To advise the Ministry of Culture at the Policy level to evolve programmes which would focus attention on the creativity at different levels of Indian society, and in different regions, which hitherto has been either neglected or not sustained through the existing institutional mechanisms.

- (b) To identify the human repositories in the diverse sub-field and advise on the strategies to ensure a continuity of transmission and to recommend to the Government programmes that will integrate the creativity of these long traditions with the processes of development.
- (c) To examine the extent and manner in which various facets of Indian Culture are being addressed by concerned agencies.
- (d) To help provide inputs for the formulation of new, need – based programmes in the field of culture.
- (e) To guide the work of the National Missions set up by the Ministry of Culture.

III. TENURE

The Tenure of Central Advisory Board on Culture will be three years with effect from the date of issue of resolution, unless otherwise decided by the Government.

IV. MEETING

The Board will meet at least once in three months.

V. SECRETARIAL ASSISTANCE

Secretarial Assistance shall be provided by the Ministry of Culture.

VI. TRAVELLING ALLOWANCE / DAILY ALLOWANCE

- i. Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room in medium range ITDC hotels or State Government run Tourist hotels/hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.
- ii. D.A. at the rate of 90% of ordinary rates of D.A. as admissible to the highest grade of civil servant for boarding purpose.
- iii. In addition to the above the outstation, non- official members will be entitled to sitting fee as decided by the Administrative Ministry /Department concerned.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries / Departments of Government of India, all State Governments / Union Territories Administration

PANKAJ RAG
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in